



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 590]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 19, 2012/कार्तिक 28 1934

No. 590]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 19, 2012/KARTIKA 28, 1934

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 नवम्बर, 2012

सं. 39/2012-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.नि. 833(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 64/95 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 16 मार्च, 1995, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 256(अ), तारीख 16 मार्च, 1995 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में क्रम सं. 31 के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. तथा प्रविष्टियां अंत प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)
"32	उपकरण और स्टोर	यदि—
		(i) उनका प्रयोग भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन प्रोजेक्ट अस्त्रा के सिस्टम एवं उप सिस्टम हेतु किया जाता है;
		(ii) उक्त पाल की निकासी से पूर्व, कार्यक्रम निदेशक, प्रोजेक्ट अस्त्रा से इस आशय का एक प्रमाण पत्र कि ऐसे पाल उक्त प्रोजेक्ट अस्त्रा, रक्षा रिसर्च और डवलपमेंट लाबोरेटरी कार्यक्रम के लिए आशयित है। उचित अधिकारी को प्रस्तुत किया जाता है।
		(iii) यदि उपरोक्त प्रयोग उस पाल के उत्पादन की फैक्ट्री से अन्यत्र हुआ है तब पाल का उत्पादक, पाल की निकासी के पांच माह में या उपायुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अथवा सहायक आयुक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क द्वारा इस संबंध में प्रदान की गई अवधि के भीतर कार्यक्रम निदेशक, अस्त्रा द्वारा जारी प्रमाण पत्र जिसमें कि उस पाल के उस संस्थान की प्राप्ति की तारीख दी गई हो तथा यह सत्यापित किया गया हो कि वह पाल प्रोजेक्ट अस्त्रा हेतु प्रयोग किया गया है।
		स्पष्टीकरण.—इस छूट का लाभ 1 मार्च, 2013 या उसके पश्चात् नहीं होगा।"

[फा. सं. 354/14/2006 टीआरयू (भाग-II)]

अक्षय जोशी, अवर सचिव

टिप्पण.—मूल अधिसूचना 64/95-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 16 मार्च, 1995 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा0का0नि0 256 (अ), तारीख 16 मार्च, 1995 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं0 38/2012-सीमाशुल्क, तारीख 16 मार्च, 1995 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) सा0का0नि0 773 (अ), तारीख 18 अक्टूबर, 2012 द्वारा प्रकाशित की गई थी, के द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th November, 2012

No. 39/2012-CENTRAL EXCISE

G.S.R. 833(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.64/95-Central Excise, dated the 16th March, 1995, published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R.256 (E), dated the 16th March, 1995, namely:-

In the said notification, in the Table, after serial number 31 and entries relating thereto, the following S.No. and entries shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)
“32	Equipment and stores	<p>If,-</p> <p>(i) used for the systems and sub-systems of Project ASTRA of the Government of India in the Ministry of Defence;</p> <p>(ii) before clearance of the said goods, a certificate from the Project Director, ASTRA, Defence Research and Development Laboratory, Hyderabad, in the Ministry of Defence to the effect that the goods are intended for the aforesaid use is produced to the proper officer; and</p> <p>(iii) the aforesaid use is elsewhere than in the factory of production of the said goods, the manufacturer produces within five months from the date of clearance or within such extended period as the Deputy Commissioner of Central Excise or the Assistant Commissioner of Central Excise, as the case</p>

	<p>may be, may allow in this regard, a certificate from the said Project Director, ASTRA, indicating the date of receipt of the said goods by that organisation and certifying that they have been actually put to the aforesaid use.</p> <p>Explanation. – Nothing contained in this exemption shall have effect on or after the 1st day of March, 2013.”</p>
--	--

[F. No. 354/14/2006-TRU (Pt. II)]

AKSHAY JOSHI, Under Secy.

Note: - The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification No.64/95-Central Excise, dated the 16th March, 1995, G.S.R. 256(E), dated the 16th March, 1995 and was last amended by notification No. 38/2012- Central Excise, dated the 18th October, 2012 vide number G.S.R. 773(E), dated the 18th October, 2012.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 नवम्बर, 2012

सं. 58/2012-सीमा-शुल्क

सा.का.नि. 834(अ).—केन्द्रीय सरकार सीमाशुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 39/96-सीमाशुल्क, तारीख 23 जुलाई, 1996, जो भारत के राजपत्र, असाधारण में सा०का०नि० 291 (अ), तारीख 23 जुलाई 1996 को प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है यथा:-

उक्त अधिसूचना में, स्पष्टीकरण और उससे संबंधित प्रविष्टियां 39 के पश्चात निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जायेंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)
40	रक्षा मंत्रालय के एयर-टू-एयर मिसाइल सिस्टम (अस्त्रा प्रोजेक्ट) कार्यक्रम के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित मशीनरी, उपस्कर, उपकरण, संघटक, अतिरिक्त पुर्जोपनिर्माण फिक्चर आई औजार, उपसाधन, कंप्यूटर साफ्टवेयर, कच्ची सामग्री, खपने वाली सामग्री,	यदि, (क) उक्त माल का आयाज प्रोजेक्ट अस्त्रा के कर्मशाला क्षेत्र, जो किसी ऐसे अधिकारी द्वारा जो भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय में उप सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो, अभिलिखित किए जायें, द्वारा किया जाता है और (ख) ऐसे प्राधिकृत कर्मशाला के तहत प्रत्येक मामले में, आयात के समय उक्त माल की सुसंगत वर्ण सहित एक ऐसी सूची उपायुक्त सीमा शुल्क अथवा सहायक आयुक्त सीमा शुल्क के समक्ष प्रस्तुत करते हैं जो कार्यक्रम निदेशक, प्रोजेक्ट अस्त्रा रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग द्वारा सम्यक रूप से इस आशय के बारे में प्रमाणित हो कि उक्त माल

	<p>प्रोजेक्ट अस्ट्रा रक्षा रिसर्च और डेवलपमेंट लाबोरेटरी, हैदराबाद, कार्यक्रम के लिए अपेक्षित है तथा</p> <p>(अ) उक्त माल का उपयोग केवल प्रोजेक्ट अस्ट्रा के लिए किया जायेगा और उस माल मा भारत में विनिर्माण नहीं किया जाता है, और</p> <p>(ब) वह माल जो कि उस सूची में वर्णित है उसका आयात भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के द्वारा प्राधिकृत है तथा उसका प्रयोग प्रोजेक्ट अस्ट्रा हेतु ही होगा।</p> <p>स्पष्टीकरण- इस छूट का लाभ 1 मार्च, 2013 या उसके पश्चात नहीं होगा।</p>
--	--

[फा. सं. 354/14/2006-टीआरयू (भाग-II)]

अक्षय जोशी, अवर सचिव

टिप्पण.—मूल अधिसूचना 39/1996-सीमाशुल्क, तारीख 23 जुलाई, 1996 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i), में सा0का0नि0 291 (अ), तारीख 23 जुलाई द्वारा प्रकाशित की गई थी। और अंतिम बार अधिसूचना संख्या 57/2012-सीमा शुल्क तारीख 18 अक्टूबर, 2012 सा.का.नि.774(अ) तारीख 18 अक्टूबर, 2012 द्वारा संशोधित की गई।

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th November, 2012

No. 58/2012-CUSTOMS

G.S.R. 834(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 39/96-Customs, dated the 23rd July, 1996, published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 291(E), dated the 23rd July, 1996, namely:-

In the said notification, in the Table, after serial number 39 and entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)
"40.	Machinery, equipment, instruments, components, spares, jigs and fixtures, dies, tools, accessories, computer software, raw materials and consumables required for the purpose of Air-to-Air Missile System (Project ASTRA) of the Ministry of Defence.	<p>If,-</p> <p>(a) the said goods are imported by authorised works centers of Air-to-Air Missile System(Project ASTRA), as may be designated by an officer not below the rank of a Deputy Secretary to the Government of India in the Ministry of Defence; and</p>

		<p>(b) the authorised works centre produces to the Deputy Commissioner of Customs or the Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, at the time of import, in each case, a list of the said goods with their relevant description duly certified by the Project Director, 'ASTRA', Defence Research and Development Laboratory, Hyderabad, to the effect that -</p> <p>i) the said goods in the list are required for Project ASTRA, and that they are not manufactured in India; and</p> <p>(ii) the import of the said goods in the list is authorized by the Ministry of Defence under and for the purposes of Project ASTRA and shall be used only for Project ASTRA.</p> <p>Explanation. — Nothing contained in this exemption shall have effect on or after the 1st day of March, 2013”</p>
--	--	---

[F.No. 354/14/2006-TRU (Pt. II)]

AKSHAY JOSHI, Under Secy.

Note.—The principal notification No.39/1996-Customs, dated the 23rd July, 1996 was published *vide* number G.S.R. 291(E), dated the 23rd July, 1996 and was last amended by notification No.57/2012-Customs, dated the 18th October, 2012 *vide* number G.S.R. 774(E) dated the 18th October, 2012.

4339 GI/12-2